

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २२] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी ३, १९६८/माघ १४, १८८९

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 3, 1968/MAGHA 14, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND
CO-OPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February 1968

G.S.R. 243.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2), read with clause (e) of sub-section (1), of section 7 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), and sub-rule (2) of rule 3 of the Food Corporations Rules, 1965, the Central Government hereby appoints Shri C. Narasimhana, Chairman, Andhra Pradesh State Electricity Board, as a director in the board of directors of the Food Corporation of India established under the said Act in place of Doctor Kamla Choudhury, Indian Institute of Management, Ahmedabad, appointed in the notification of the Government of India in the Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) No. G.S.R. 213 dated the 3rd February, 1965.

[No. F. 4-1/64-FCC-Vol.II.]

R. BALASUBRAMANIAN, Jt. Secy.

